



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1934 (श0)
(सं0 पटना 642) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2012

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर 2012

सं0 यो04/पी0पी0पी0-1/2012-4719/यो0वि0वि0—जन निजी भागीदारी अंतर्गत योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसको प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए पूर्व में ही राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन किया जा चुका है।

इस कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत किया गया है :-

- | | | |
|-------|--|------------|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | अध्यक्ष |
| (ii) | विकास आयुक्त, बिहार | उपाध्यक्ष |
| (iii) | प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| (iv) | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार | सदस्य |
| (v) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| (vi) | प्रधान सचिव/सचिव/प्रबंध निदेशक/संबंधित विभाग/निगम, बिहार | सदस्य |
| (vii) | प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार | सदस्य सचिव |

जन निजी भागीदारी से संबंधित परियोजनाओं के दस्तावेजों पर उपर्युक्त प्राधिकृत समिति के विचार एवं अनुशंसा करने के पश्चात् ही मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव भेजा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय प्रकाश,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 642-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>